



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 चैत्र 1934 (श0)  
(सं0 पटना 141) पटना, बुधवार, 4 अप्रील 2012

---

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

1 मार्च 2012

सं0 निग/सारा-1-विविध-04/07-2414 (एस)—श्री कामिनी प्रसाद महतो, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राघोपुर, सुपौल द्वारा पथ प्रमंडल कटिहार के पदस्थापन काल में वर्ष 2000-01, 2001-02 एवं 2002-03 में कराये गये मरम्मत एवं निर्माण कार्य की श्री उमाशंकर सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान-सभा से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना के आलोक में तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग से कराये गये जाँच एवं उनसे प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोप प्रपत्र "क" गठित करते हुए श्री प्रसाद से विभागीय पत्रांक-11694 (एस) अनु0, दिनांक 19.10.09 द्वारा बचाव बयान/स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री प्रसाद द्वारा समर्पित बचाव बयान/स्पष्टीकरण दिनांक 10.12.09 की तकनीकी/विभागीय समीक्षा के उपरांत उनके स्पष्टीकरण को इस आधार पर स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया कि श्री महतो ने अपने स्पष्टीकरण में अपने विरुद्ध गठित आरोप के निम्न अंश यथा—"सामग्री-प्रमाणकों में सामग्री की मात्रा के अवलोकन से स्पष्ट है कि ये मात्राएँ व्यवहारिक रूप से दुलाई नहीं की गयी है बल्कि प्रमाणकों की राशि के अनुरूप 10 हजार रुपये तक सीमित कर मात्राएँ काल्पनिक रूप से दर्ज की गयी हैं" के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया जिसके लिए उन्हें उक्त अनियमित कार्य के लिए दोषी पाया गया।

तदआलोक में श्री कामिनी प्रसाद महतो, तत्कालीन कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार सम्प्रति सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, राघोपुर, सुपौल के स्पष्टीकरण/बचाव बयान को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है :-

1. दो वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
(ह0) अस्पष्ट,  
सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 141-571+10-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**